

1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों पर उनके योगदान के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया गया है।
2. नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने एक नये और अत्याधुनिक वर्चुअल रिएलिटी सेंटर (वीआरसी) का उद्घाटन किया, जो नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा।
3. प्रख्यात कवि प्रदीप चौबे का निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। वह अपनी हास्य रचनाओं के लिए जाने जाते थे।
4. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक और दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की मानद आजीवन सदस्यता दी गयी है।
5. डिजिटल भुगतान की सेवा देने वाली कंपनी पेयू ने भारत में काम करने वाली अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी विब्लो का 7 करोड़ डॉलर (करीब 484 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण किया है।
6. एलीस जी वैद्यन को भारत और ब्रिटेन के बीच बीमा से जुड़े रिश्तों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
7. भारत, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, एडीआईबीएफ 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा।
8. प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
9. प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने नई दिल्ली में 'संविधान सभा में डॉ भीमराव अंबेडकर के चयनित भाषणों' की एक पुस्तिका जारी की।
10. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) को लंदन में ग्लोबल वॉटर समिट में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा "पब्लिक वॉटर एजेंसी ऑफ द ईयर" के सम्मान से सम्मानित किया गया।
11. आसियान-भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 21 वीं बैठक (एसओएम) नई दिल्ली में आयोजित की गई।



**Write us -**  
[content@mahendras.org](mailto:content@mahendras.org)